

प्रेस नोट:दिनांक 04.06.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान, पी0ए0सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार प्रसार किया गया ।

आज दिनांक 04-06-2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अखिलेश वर्मा के कुशल निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत पी0ए0सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा व पावर हाउस तिराहा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार प्रसार किया गया तथा प्रभारी यातायात श्री अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा 161 वाहनों को चेक किया गया, वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले 25 वाहनों से 35500-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।

प्रेस नोट दिनांक 04.06.2022

डा0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री घनश्याम सिंह, थानाध्यक्ष मिश्रौलिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2022 को शान्ति व्यवस्था हेतु मय फोर्स के साथ थाना क्षेत्र के कस्बा चेतिया में भ्रमण के दौरान, थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत एक गांव से विगत वर्ष दिनांक 10/06/2021 से गायब एक बालक के सम्बन्ध में दिनांक 13 .06 .2021 को थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या- 72 / 21 धारा- 363 आईपीसी से सम्बंधित गुमशुदा बालक को मय टीम थानाध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह मय हमराह उ0नि0 हरीराम भारती, प्रभारी सर्विलांश सेल उ0नि0 अमित कुमार व का0 अभिनन्दन सिंह, मुख्य आरक्षी शमशेर खान,का0 विशाल पासवान, का0 रोशन राय, का0 आकाश कुमार, का0 संदीप गुप्ता एक साथ, ग्राम बडहरघाट कि तरफ से वह लड़का आता हुआ दिखाई दिया, लड़के को रोककर पूछा गया तो अपना नाम पता बताया और बताया कि मम्मी के डांटने की वजह से घर से बिना बताए नोएडा चला गया था और वहीं पर सेक्टर नंबर 59 में इधर उधर काम करके जी खा रहा था मम्मी पापा की याद आ रही थी, इसलिए घर जा रहा था कि आप लोग मिल गए, उसके पिताजी एवं दादाजी को बुलाकर अग्रिम कार्रवाई की गई ।

प्रेस नोट दिनांक 04.06.2022 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

**

फरार चल रहे फौजदारी वाद संख्या-190/15 धारा 454/380 भादवि थाना मोहाना सरकार बनाम राधेश्याम से संबंधित गैर जमानती वारंटी राधेश्याम पुत्र बेचन नाथ सा0 बर्डपुर टोला रामनगर थाना मोहाना जनपद सि0नगर को आज मोहाना पुलिस ने किया गिरफ्तार,भेजा न्यायालय

**

श्री यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2022 को अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत फरार चल रहे फौजदारी वाद संख्या-190/15 धारा 454/380 भादवि थाना मोहाना सरकार बनाम राधेश्याम से संबंधित गैर जमानती वारंटी राधेश्याम पुत्र बेचन नाथ सा0 बर्डपुर टोला रामनगर थाना मोहाना जनपद सि0नगर जो फरार चल रहा था, को आज मोहाना पुलिस ने बर्डपुर टोला रामनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*

*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 सभाशंकर यादव चौकी प्रभारी शुद्धोधन थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. का0 धर्मात्मा यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 04.06.2022

कपिलवस्तु पुलिस ने 02 वारंटियों को किया गिरफ्तार

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त वारंटों के तामीला हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व सूर्य प्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 04.06.2022 को माननीय न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा जारी NBW (वारण्ट) वाद सख्या- 790/19 धारा 352/504/506/380/411 IPC से संबंधित दो नफर वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारंटियों का विवरण:-

1. राधेश्याम पुत्र केशरी नारायण
 2. जटाशंकर पुत्र दीनानाथ
- निवासीगण बर्डपुर नंबर 9 थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 श्री किशोरी लाल चौधरी
 02. का0 धीरज मौर्या
 03. पी0आर0डी0 महेंद्र प्रसाद
- थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट-थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर दिनांक 04.06.2022

महिला सशक्तिकरण व साइबर हेल्प लाइन के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान

डॉ0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्री वास्तव * क्षेत्राधिकारी डुमरिया गंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.06.2022 को *श्री राजेश कुमार मौर्य थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार सिद्धार्थनगर के निर्देशन में महिला बीट पुलिस अधिकारी, महिला आरक्षी ओमलता शुक्ला द्वारा महिलाओं, बच्चों के साथ महिला सम्बन्धी अपराध, महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में ग्राम छोटा डिहवा में जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया तथा महिलाओं व बच्चियों को महिला सम्बन्धी अपराध एवं साइबर सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड एवं साइबर हेल्प लाइन 1930 के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

